

जून में औसत कारोबार दोगुना

शेयर बाजार में सुधार और नए निवेशकों के प्रवेश से बढ़ीं गतिविधियां

सुंदर सेतुरामन मुंबई, 2 जुलाई

एक ओर जहाँ अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र दबाव का सामना कर रहे हैं, वहीं शेयर बाजार में गतिविधियां बढ़ गई हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में नकदी बाजार में कारोबार जून में सालाना आधार पर करीब दोगुना हो गया। एनएसई में जून में रोजाना औसत कारोबार 61,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इस तरह से सालाना आधार पर उसमें 95 फीसदी की उछाल दर्ज हुई। बीएसई में रोजाना औसत कारोबार जून, 2019 के मुकाबले दोगुना होकर 5,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह जानकारी आईसीआईसीआई सिक््योरिटीज की तरफ से संग्रहित आंकड़ों से मिली।

एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर इक्विटी व करेंसी डेरिवेटिव और म्युचुअल फंड ट्रेडिंग की वॉल्यूम के लिहाज से बेहतर रहा। विशेषज्ञों ने कहा, व्यापक बाजारों में खरीदारी का माहौल और नए निवेशकों के प्रवेश से वहां की गतिविधियां मजबूत रही।

मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन के प्रबंध निदेशक व मुख्य व्यापारिकारी अजय मेनन ने कहा, जून में वॉल्यूम में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बाजार के उतारचढ़ाव और मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों को लेकर सकारात्मक अवधारणा के कारण हुई। साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी क्लाइंटों को डिजिटल



माध्यम से बाजार के साथ जुड़ने में मदद कर रहा है। विभिन्न ब्रोकिंग हाउस के कुल खातों में से करीब 60 फीसदी नए निवेशक हैं और उनमें से कई छोटे व मझोले शहरों के हैं।

विशेषज्ञों ने कहा, खाते का ऑनलाइन खुलना और सहूलियत भरा मोबाइल ऐप्लिकेशन नए निवेशकों को इक्विटी बाजार में प्रवेश में मदद कर रहा है।

क्रॉससीज कैपिटल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक राजेश बहेती ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर लोकडाउन की घोषणा के बाद से काफी लोग ट्रेडिंग में उतर गए। युवाओं के बीच ऑनलाइन खाता खोलने व ट्रेडिंग

शुरू करने को लेकर जोश रहा। यह अनिवार्य तौर पर कोविड के बाद की प्रवृत्ति है और समय काटने के लिए इसकी शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त कामेंट भी मार्च में आकर्षक थीं और निवेशकों ने उस अवधि में कमाई, जिससे उनका उत्साह बढ़ा।

अब तक के सर्वोच्च स्तर से 40 फीसदी तक टूटने के बाद बाजार में तेज सुधार हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी जून तिमाही में 20 फीसदी उछला, जो 11 साल की सबसे अच्छी तिमाही रही। साथ ही स्मॉल व मिडकैप शेयरों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली।

इक्विटी डेरिवेटिव में एनएसई

की एकाधिकार वाली स्थिति है और जून में वहां रोजाना औसत कारोबार सालाना आधार पर 23 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 16.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

चूड़ीवाला सिक््योरिटीज के प्रबंध निदेशक आलोक चूड़ीवाला ने कहा, लोकडाउन में बढ़ोतरी लोगों को व्याकुल बना रहा है। वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हुई क्योंकि खाता खोलने से लेकर ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। नए निवेशकों की बाजार में दिलचस्पी दिखी। साथ ही नई पीढ़ी के निवेशक डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं।

बीएस बातचीत

फॉर्च्यून के लिए हमारे पास बड़ी योजनाएं

आरपी-संजीव गोयनका (आरपीएसजी) समूह ने फॉर्च्यून पत्रिका की प्रकाशक फॉर्च्यून मीडिया ग्रुप के साथ समझौता किया है। इस पत्रिका का पहला संस्करण एबीपी समूह के साथ भागीदारी में 2010 में शुरू किया गया था। एक साक्षात्कार में आरपी-एसजी चेयरमैन संजीव गोयनका ने ईशिता आर्यान दत्त को बताया कि हमने भारत में फॉर्च्यून के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

आपको महामारी के दौरान पत्रिका में निवेश करने का विचार दिमाग में कैसे आया? महामारी हमेशा नहीं रहेगी। मेरा मानना ​​है कि फॉर्च्यून मीडिया से जुड़ा प्रतिष्ठित ब्रांड है और यही वजह है कि मैंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। मैं हमेशा से यह मानता रहा हूं कि हम मीडिया में अपनी दिलचस्पी बढ़ाएंगे और अब एक सही ब्रांड, सही उत्पाद और सही समय पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए, हमने भारत में फॉर्च्यून का प्रकाशन करने के लिए कल फॉर्च्यून-ग्रुप्सए के साथ समझौता किया। यह हमारे लिए आपन के बाद दूसरी पत्रिका होगी। आपन को शुरू किए 10 साल हो चुके हैं और इसने खास पहचान बनाई है। हमने फॉर्च्यून के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

ये योजनाएं क्या हैं? हमने योजनाएं तैयार की हैं, लेकिन इनकी घोषणा से पहले टीम के साथ इनकी पुष्टि करने की जरूरत होगी और इस कार्य में चार से छह सप्ताह लगेंगे।

क्या आप डिजिटल योजना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? फॉर्च्यून का डिजिटल वर्जन होगा और आपन को भी डिजिटल वर्जन के साथ पेश किया जाएगा। हम डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अधिग्रहण सीढ़ा करने के भी नजदीक हैं। यह जुलाई में या अभी अगले सप्ताह



हो सकता है। हम लाइफस्टाइल स्पेस में भी हाथ आजमाना चाहते हैं।

क्या डिजिटल अधिग्रहण समाचार क्षेत्र में होगा? हां, यह समाचार क्षेत्र में है।

क्या आप मानते हैं कि खासकर मौजूदा महामारी के दौर में डिजिटल का जोर बढ़ा है? डिजिटल क्षेत्र मीडिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मैं इसे लेकर आश्वस्त नहीं हूं कि क्या यह प्रिंट की लागत पर होगा, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण होगा और निश्चित तौर पर इसे लोकप्रियता मिलेगी। महामारी के समय में यह ज्यादा जरूरी भी हो गया है। इसलिए, हमारी प्रमुख डिजिटल उपस्थिति होगी। अधिग्रहण जल्द होगा, लेकिन इस बारे में टीम योजना बनाई है। हमने कुछ नियुक्तियां की हैं।

लेकिन आप टेलीविजन चैनलों और अखबारों के अधिग्रहण को इच्छुक थे। उन योजनाओं का क्या हुआ?

मैं अभी भी इसे लेकर उत्साहित हूं। मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि मैं अपना मीडिया व्यवसाय बढ़ाउंगा और मौजूदा कदम उसी दिशा में उठाए गए हैं। आखिरकार, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जगह बनाएंगे।

हिताची एबीबी पावर ग्रिड के जेवी की नजर डिजिटल नवाचार पर

ज्योति मुकुल नई दिल्ली, 2 जुलाई

हिताची एबीबी पावर ग्रिड्स संयुक्त उद्यम सौदे को औपचारिक तौर पर बंद करने के साथ ही कंपनी डिजिटल नवाचार के साथ पावर सिस्टम प्रौद्योगिकी की एकीकृत सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में होगी। भारत में कंपनी पावर सिस्टम से इतर मोबिलिटी, बिजलीकरण एवं सार्वजनिक रैपिड परिवहन प्रणाली आदि क्षेत्रों में वृद्धि की संभावनाएं तलाश रही है।

हिताची एबीबी पावर ग्रिड्स के भारत में प्रबंध निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख (दक्षिण एशिया) एन वेणु ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि कोविड-19 के बाद जनवरी 2021 तक करीबार सामान्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पांच जगहों पर कंपनी के 16 विनिर्माण संयंत्र फिलहाल 90 फीसदी क्षमता पर परिचालन में हैं।

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कम्पा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	
अब कि, इंडियाब्लूज हाउसिंग फाइनान्स लिमिटेड (आईएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोलक्ष्यकारी ने इस्फवीरिडब्लेजेसन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनशियल असेट्स एंड एकोनॉमिस्ट ऑफ़ डिवेलपमेंटी इंटेरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के खण धारा 13(12) के खण डिवेलपमेंटी इंटेरेस्ट (एफोसमिस्ट) ब्ल्यूज, 2002 के साथ खरो हुए प्राय अधिकारी का उपयोग करके कर्जदार फायन बावतारी प्रोपराइट्टर अर्जीश हाईवेयर और हरिश कुमार बावतारी को 27.09.2019 को सूचना में कर्ज के अनुसार कर्ज खात नंA045XII (पहले लोन खाता रंजर HMLBHP00362269) को खरि रु.30,81,820/- (रुएक शीस लाख इक्वसरी हजार आठ सौ बीस मात्र) 27.09.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज लोन खाता इक्वसरी हजार आठ सौ बीस मात्र) 27.09.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाब्लूज एक्ट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अर्जन होना.	
उपराकर्मिने बा ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए २पलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जात है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
सुनिट/प्लेट नं-बी.5203, दूसरी मंजिल पर जिसका फ्लैट अप एरिया 1428 स्क्.फीट और नुपर फ्लैट अप एरिया 1928 स्क्.फीट करीब वृड कॉन्फेक्स के ब्लॉक बी-5 में, गॉव निरसाई में स्थित, हीराखंबा रोड, तहसील हुबुर, भोपाल- 462001, मध्य प्रदेश और जो निम्ननुसार परिबद्ध है:	
पूर्व में : हाउसिंग पश्चिम में : प्लैट नं.बी5/202	उत्तर : प्लैट नं.बी4/204 दक्षिण : कौरीबोर के बाद प्लैट नं.बी5/204
दिनांक: 02.07.2020 स्थान : भोपाल	बाहि- प्राधिकृत अधिकारी इंडियाब्लूज एक्ट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इंडियाब्लूज एआरसी-XII के ट्रस्टी की और से

हीरो फिनकॉर्प की डाउनग्रेडिंग के लिए समीक्षा बाद में होगी

रेटिंग एजेंसी मूडीज हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की बीएए-3 स्थानीय व विदेशी मुद्रा जारी करने वाली रेटिंग की समीक्षा बाद में करेगी। एजेंसी ने रेटिंग की समीक्षा

13 अप्रैल, 2020 को शुरू की थी। उम्मीद थी कि कर्ज का भुगतान न मिलने व डिफॉल्ट के कारण कंपनी को परिसंपत्ति गुणवत्ता खराब होगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा,

HDFC BANK

We understand your world

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बागपट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013

क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तिओं के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित व्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का मौलिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उस नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **“जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर”** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचे दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर आयोजित की जायेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि मांग सूचना विनांक	निरिक्षण की तिथि एवं समय	निरिक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य ईएमपी बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	शाखा – अशोक नगर एवं खाता – आजाद कुमार चुनौल कुमार	श्री अनिल कुमार जेन एवं श्रीमती संगीता जेन	1. मकान नं. 120, वार्ड नं. 13, बजरिया मोहल्ला, प्रोसेशन रोड, ललितराम नली, अशोक नगर, मध्य प्रदेश, संपत्ति मालिक श्रीमती संगीता जेन 2. प्लाट नं. 187, वार्ड नं. 13, पटवारी हल्का नं. 28, ललितराम नली, अशोक नगर, मध्यप्रदेश, संपत्ति मालिक श्री अनिल कुमार जेन	रु. 11,47,617.19 दिनांक 28/12/2016	10/08/2020 एवं समय– प्रातः 10.00 बजे के बाद	10/08/2020 एवं समय– प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	रु. 6,58,000/- रु. 67,000/- रु. 10,000/- रु. 12,00,000/- रु. 1,20,000/- रु. 20,000/-	24/08/2020 से दोपहर 01 बजे तक	20/08/2020 सायं 4 बजे तक	आशिष रायत Ashish.rawat9@hdfcbank.com

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी “जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर” आयोजित की जा रही है।

2. इच्छुक बोलीदाता को लागिंग आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर ईएमपी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (सूजर आईडी तथा पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> पर नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमपी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063, खाता का नाम: FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट ईएमपी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिपोर्ट अनुसार संपत्ति पर कोई भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिमारों/करों के बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिमारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथिों एवं समय में ही किया जा सकता है।**

4. ईएमपी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लागिंग आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, हैल्प्सलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री दानिश खान, मोबाईल : 09826804343, 09111444797 एवं श्री हरीश गोयडवा नी. 09594597555, हैल्प्सलाईन ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्याधिकारों को संपर्क करें।

5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

6. (विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)

सर्कफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 30 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को उसर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रूप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 30 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अदतल व्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली व्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 03/07/2020, स्थान : अशोक नगर, मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

HDFC BANK

We understand your world

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बागपट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013

क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना